



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 2004—सितम्बर 24, 2004 (भाद्रपद 27, 1926)  
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 2004—SEPTEMBER 24, 2004 (BHADRA 27, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 2 सितम्बर 2004

सं. 18/एस-ईएससी-1-10--चलार्थ पत्र मुद्रणालय के निम्नलिखित निरीक्षक नियंत्रणों को तदर्थ आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतन श्रेणी में उप नियंत्रण अधिकारी (वर्ग 'ख', राजपत्रित) के पद पर चलार्थ पत्र मुद्रणालय में दिनांक 10.08.2004 से दिनांक 09.02.2005 की अवधि तक अथवा नियंत्रण अधिकारी का पद नियमित रूप से भरे जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, पदोन्नत किया जाता है :--

अ. क्र.	नाम
1.	श्री पी. जी. भागवत
2.	श्री एस. वी. कावले
3.	श्री ए. एस. राठ
4.	श्री आर. आर. लिलके (अ. ज. जा.)

2. उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी। उक्त पदोन्नति कोई भी कारण दर्शाए बिना समाप्त की जा सकती है।

अ. ना. इंगले  
महाप्रबन्धक

प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद-461005, दिनांक 23 अगस्त 2004

सं. 7(156)/5643--विभागीय पदोन्नति समिति वर्ग "ख" की सिफारिशों के आधार पर श्री झेवियर बट्ट को तकनीकी अधिकारी (विद्युत) श्रेणी "ख" राजपत्रित (मान मिनिस्ट्रियल) के पद पर वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में दिनांक 23.08.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

इनका परीक्षाकाल दो वर्ष रहेगा।

अश्विनी कुमार  
महाप्रबन्धक

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. ए-19018/660/82-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलौर में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (रसायन), श्री आर. संपत कुमार को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में उप निदेशक (रसायन) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 16.08.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. बी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अगस्त 2004

सं. ए-32013/2/2003-ए-1--राष्ट्रपति, भारतीय पूर्ति सेवा के कनिष्ठ समयमान के निम्नलिखित अधिकारियों को उप निदेशक (पूर्ति), सेवा के वरिष्ठ समय-मानक, के पद पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के अनुसार नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री,	
1.	धरणीधर झा	27.02.2004
2.	दीपक शर्मा	23.04.2004
3.	के. श्रीनिवासलू	27.02.2004
4.	एम. पी. सिंह	23.04.2004

अनिता तिपरा  
उप निदेशक (प्रशासन-1)  
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 19 अगस्त 2004

सं. 21/3(2)/2004-सीसीएस/21--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री डी. गोपाला राव, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000--13,500/-), एचआरपीयू, क्रय और भंडार निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 13.07.2004 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2004

सं. 22/3(2)/2004-सीसीएस/22--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री डी. जे. परमार, सहायक भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-), भंडार यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, बड़ोदा को दिनांक 14.06.2004 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक कोट क्षेत्रीय भंडार यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, कोट में भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 22/3(2)/2004-सीसीएस/23--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री पी. ए. मुनुस्वामी, सहायक भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-), एमआरपीयू, क्रय और भंडार निदेशालय, चेन्नई को दिनांक 04.06.2004 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक भंडार यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, कलपक्कम में भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 22/3(1)/2004-सीसीएस/24--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई के श्री सी. यू. पंजाबी, क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 22/3(2)/2004-सीसीएस/25--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, इस विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई के श्री के. पी. बी. नायर, भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) दिनांक 30.04.2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त, 2004

सं. 21/3(3)/2004-सीसीएस/26--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एस. एस. प्रभुझांटे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000--13,500/-), क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 19.08.2004 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, मुम्बई में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 31 अगस्त 2004

अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :-

सं. 1/6(5)/2002-पावर/679--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एच. डी. शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी/जी, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 1.8.2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक स्थानापन्न आधार पर वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/- में वैज्ञानिक अधिकारी/एच, के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम
1.	श्री नित्यानंद पाल
2.	श्री वी. जे. चाको
3.	श्रीमती जैन रेजी जॉर्ज
4.	श्री रवि शेखन

श्री एच. डी. शर्मा ने तारीख 1.8.2004 के पूर्वाह्न से अपने द्वारा धारित निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ओ. भारतन  
प्रशासन अधिकारी-III

उमा महादेवन  
उप सचिव

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2004/एस-567--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी', के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :-

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नई मुम्बई-400705, दिनांक 18 अगस्त 2004

क्रम सं.	नाम
1.	श्री डी. के. रंगनाथा
2.	श्री सईद अनवर तारीक
3.	श्री जी. चटरजी

सं. ब्रिट/9/17/फरवरी/2004/एस-566--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक

ओ. भारतन  
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 2 सितम्बर 2004

सं. नाईस/का.प्रभ.-II/2-2004/1145--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/वैज्ञानिक सहायकों को उनके सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड और प्रभावी तिथि से इसी एकक में स्थानापन्न हैसियत से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	नाम	पदोन्नति		पदोन्नति की तिथि
		ग्रेड से	ग्रेड तक	
1	2	3	4	5

वैज्ञानिक अधिकारी (ई) का वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-

01.	सर्वश्री टी. अमर प्रकाश	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	01.02.2004
02.	ई. वेंकटेशम	"	"	01.02.2004
03.	के. गुरुमूर्ति	"	"	01.02.2004
04.	डी. जी. के. सूरि	"	"	01.02.2004
05.	एम. राबिन रॉड्रिगो	"	"	01.02.2004

वैज्ञानिक अधिकारी (डी) का वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-

01.	डॉ. बी. रविराज	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.02.2004
-----	----------------	----------------------	----------------------	------------

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
02.	पी. प्रेमा प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.02.2004
03.	जी. एन. रमेश	"	"	03.02.2004
04.	ए. सुधाकर राव	"	"	01.02.2004
05.	डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी	"	"	01.02.2004
06.	ओ. दिनाकर	"	"	01.02.2004
07.	सी. रामकृष्णा	"	"	10.02.2004
08.	बी. रवि कुमार	"	"	01.02.2004
वैज्ञानिक अधिकारी (सी) का वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-				
01.	वी. आर. सी. कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.02.2004
02.	बी. एस. प्रकाश राव	"	"	01.02.2004
03.	के. गोपालकृष्ण	"	"	01.02.2004
04.	पी. बी. वराप्रसाद	"	"	01.02.2004
05.	आर. एस. अंभोरकर	"	"	01.02.2004
06.	आर. पी. सेलवम	वैज्ञानिक सहायक/डी	"	01.02.2004

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कजरिमा सल्यूशन्स  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 नवम्बर 2003

सं. 560(5)/एसईएस/269/55-105431/4640--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में  
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कजरिमा सल्यूशन्स लिमिटेड  
का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी  
विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शंकर लुम्बर्स प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/05/34229/184/1566 --  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के

अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स शंकर लुम्बर्स  
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और  
उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. के. एन. चिद्स प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/05/32128/192/1575 --  
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के  
अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. के. एन.  
चिद्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया  
है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिगबोई वोटलिंग इन्जीनियर्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एफटीएस-560(5)/एसईएस/55/60268/1593--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिगबोई वोटलिंग इन्जीनियर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हैयश क्रिस्टल लाइट हाऊस इम्पेक्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-56625/OG2/445/8424--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हैयश क्रिस्टल लाइट हाऊस इम्पेक्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिन्द एग्रेसिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-39794/OG2/445/8421--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिन्द एग्रेसिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुप्रिया चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-34068/OG2/445/8418--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुप्रिया चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रिजबासी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-32263/OG2/445/8415--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रिजबासी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धरम सुख इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-31901/OG2/445/8412--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स धरम सुख इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अगस्त फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-62592/OG2/445/8445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अगस्त फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इम्पीरियल इन्फ्यूक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।**

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-27971/OG2/445/8502--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इम्पीरियल इम्पेक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम आर सखूजा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-10667/OG2/445/8499--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम आर सख्खा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाहलिया हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-18570/OG2/445/8496--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डाहलिया हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स होलोथूरिया कैंटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-18572/OG2/445/8493--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स होलीयूरिया कैटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरियाणा मेटालर्जिकल रिसर्च कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-20684/OG2/445/8490--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन्त चिट फण्ड एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अगस्त 2004

सं. 560/55-9227/OG2/445/8487--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सन्त विट फण्ड एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मालुस कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-18397/OG2/445/8484--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मालस कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर-अजय सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-40631/OG2/445/8472--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर-अजय सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चकरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-41058/OG2/445/8469--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चकरा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भितेश होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-41108/OG2/445/8466--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नितेश होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैप एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-43004/OG2/445/8463--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वैप एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनिमार्क एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-43521/OG2/445/8460--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनिमार्क एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैम्पटीफाल्स रिक्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-46258/OG2/445/8457--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कैम्पटीफाल्स रिक्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अभीषि इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-46638/OG2/445/8454--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अभीषि इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निम्बस क्रेडिट एण्ड हॉल्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-49232/OG2/445/8457--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निम्बस क्रेडिट एण्ड हॉल्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवा प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-9372/OG2/445/8565--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवा प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेनाइस डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-74207/OG2/445/8562--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेनाइस डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नर्गिस फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-53559/OG2/445/8559--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नर्गिस फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लॉएड्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-32850/OG2/445/8550--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लॉएड्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्लैडीओली फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-53540/OG2/445/8556--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्लैडीओली फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऑल वी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-44089/OG2/445/8547--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऑल वी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्राइस्टोपाल ग्लास (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-28975/OG2/445/8553--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्राइस्टोपाल ग्लास (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिलेनियम ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-70281/OG2/445/8544--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिलेनियम ओवरसीज प्राईवेट

लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टोमसन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-34749/OG2/445/8541--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टोमसन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेलकिन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-70312/OG2/445/8538--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेलकिन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एफ. एक्स. प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-70551/OG2/445/8535--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एफ. एक्स. प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुशमा सुमिता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-70709/OG2/445/8532--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुशमा सुमिता एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अभिमन्यु बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-41578/OG2/445/8529--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अभिमन्यु बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लोकसेवा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-53355/OG2/445/8526--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लोकसेवा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड

सं. 560/55-68636/OG2/445/8334--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

सं. 560/55-34387/OG2/445/8313--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनहेरी लीजिंग एण्ड  
फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-69079/OG2/445/8292--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनहेरी लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रावी इम्पेक्स प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-61389/OG2/445/8299--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रावी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमजेआई लीजिंग एण्ड  
फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-48965/OG2/445/8286--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमजेआई लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विश्वकर्मा इम्पेक्स प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-57222/OG2/445/8283--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विश्वकर्मा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. ओ. पी.  
कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-50163/OG2/445/8280--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी. ओ. पी. कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेस एप्परेल प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-54803/OG2/445/8277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेस एप्परेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैटईल्स फैमिली  
इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-52601/OG2/445/8276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा



सं. 560/55-14299/CG2/445/8235--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स त्रिवेणी वित्त फण्ड प्राइवेट लिमिटेड

सं. 560/55-26684/OG2/445/8214--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनक्रो फास्टवर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरासर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-54796/OG2/445/8211--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरासर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-31136/OG2/445/8208--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्युटी फाइनेशियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-72720/OG2/445/8205--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्युटी फाइनेशियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेन्टर फार प्रोफेशनल डेवलपर्स एण्ड रिकन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-74530/OG2/445/8202--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेन्टर फार प्रोफेशनल डेवलपर्स एण्ड रिकन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिल्प पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. 560/55-74693/OG2/445/8199--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिल्प पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

आर. के. साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धन्जू फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 26 अगस्त 2004

सं. आरओसी/560(3)/13097/4928--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स धन्जू फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स 'रोश्वर फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड' के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20929/4610--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स 'रोश्वर फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड' का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. एच. लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./23647/4612--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. एच. लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. के. बर्मन हर्बल प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./11165/4614--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जी. के. बर्मन हर्बल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राईमैसी पालीमर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./19239/4616--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्राईमैसी पालीमर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रुमा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./17488/4618--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रुमा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्मृति रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./12624/4620--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्मृति रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बनारस होजरी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./1088/4622--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

सूचना दी जाती है कि मैसर्स बनारस होजरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. जे. वी. पालीकटनर्स  
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./5379/4624--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. जे. वी. पालीकटनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रिजवासी प्लाईवुड  
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./18995/4626--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रिजवासी प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री कृष्ण बलराम एग्रो  
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./19767/4628--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री कृष्ण बलराम एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वृन्दावन होटल्स प्राईवेट  
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./18618/4630--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स वृन्दावन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवांगी इम्पेक्स प्राईवेट  
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./17831/4632--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिवांगी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपिका फिनकैप प्राईवेट  
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20372/4634--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स दीपिका फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राधा वायर इन्डस्ट्रीज  
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20392/4636--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स राधा कृष्ण इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. एस. त्रिवेदी एण्ड एसोसिएट कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./22576/4638--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच. एस. त्रिवेदी एण्ड एसोसिएट कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गंगा जमुना फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./17218/4640--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गंगा जमुना फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एण्ड ए. कैंडीमैन मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./23824/4642--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. एण्ड ए. कैंडीमैन मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कामर्शियल ऑटो एनसेलरीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./14860/4644--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कामर्शियल ऑटो एनसेलरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. सी. जी. इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./19448/4646--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच. सी. जी. इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. सी. जी. म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./19449/4648--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच. सी. जी. म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेमेन्ट इण्डिया (एक्सपोर्ट) प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./17350/4650--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेगमेन्ट इण्डिया (एक्सपोर्ट) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्कैन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./14865/4652--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्कैन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन. सी. आर. फिनविस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./4764--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन. सी. आर. फिनविस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. डी. शुक्ला सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./7351/4766--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. डी. शुक्ला सर्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंहानिया हर्बल कास्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./14729/4857--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंहानिया हर्बल कास्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याण फ्लेक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 3 सितम्बर 2004

सं. 16455/जे.टी.ए./560/2004-04/936--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स कल्याण फ्लेक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. मीना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)**  
**CURRENCY NOTE PRESS**

Nashik Road, the 2nd September 2004

No. 18/S-ESC-1-10—The following Inspector Control of Currency Note Press are promoted to the post of Dy. Control Officer (Group 'B', Gazetted), Currency Note Press purely on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- from 10.08.2004 to 09.02.2005 or till the posts of Control Officer are filled on regular basis, whichever is earlier.

Sl. No.	Name
---------	------

- |     |                      |
|-----|----------------------|
| (1) | Sh. P. G. Bhagwat    |
| (2) | Sh. S. V. Kawale     |
| (3) | Sh. A. S. Raut       |
| (4) | Sh. R. R. Lilke (ST) |

2. The above ad-hoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the ad-hoc service rendered by them would not count for the purpose of seniority in that grade for regular promotion. The above ad-hoc promotions is also liable for termination without assigning any reasons.

A. N. INGLE  
General Manager

**SECURITY PAPER MILL**

Hoshangabad-461065, the 23rd August 2004

○ No. 7(156)/5643—Based on the recommendation of the D.P.C. (Group "B") Shri Xavier Battu is promoted to the Post of Technical Officer (Electrical) Group "B" Gazetted (Non-Ministerial) in the Pay Scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from 23.08.2004 (F.N.) on regular basis until further orders.

He will be on probation for a period of two years.

ASHWINI KUMAR  
General Manager

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES**  
**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER**  
**SMALL SCALE INDUSTRIES**

New Delhi, the 30th August 2004

No. A-19018/660/82-Admn (G).—The President is pleased to appoint Shri R. Sampath Kumar, Assistant Director (Grade-I) (Chemical), Small Industries Service Institute, Bangalore as Deputy Director (Chemical) on

officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Institute with effect from the forenoon of 16.08.2004 until further orders.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Dir. (Admn.)

**DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS**

New Delhi-110001, the 31st August 2004

No. A-32013/2/2003-A-I.—The President is pleased to appoint the following officers of Junior Time Scale of Indian Supply Service to the post of Deputy Director (Supplies), Senior Time Scale of the Service in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	S/Shri	
1.	Dharnidhar Jha	27.02.2004
2.	Deepak Sharma	23.04.2004
3.	K. Srinivasulu	27.02.2004
4.	M. P. Singh	23.04.2004

ANITA TIPRA  
Dy. Dir. (Admn. I)  
For Director General of Supplies & Disposals

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**

\* Mumbai-400001, the 19th August 2004

No. 21/3(2)/2004-CCS/21—The President is pleased to appoint Shri D. Gopala Rao, Senior Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8,000—13500/-) HRP, Directorate of Purchase & Stores, Hyderabad of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad with effect from the forenoon of 13.07.2004 (FN) until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

The 20th August 2004

No. 22/3(2)/2004-CCS/22—The President is pleased to appoint Shri D. J. Parmar, Assistant Stores Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500/-), Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Baroda, of this Department as Stores Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the Kota



Regional Stores Unit, DPS, Kota, with effect from the forenoon of 14.06.2004 (FN) until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in an officiating capacity w.e.f. 01.08.2004 until further orders.

The above officer has relinquished charge of the lower post held by him w.e.f. 01.08.2004 (FN).

UMA MAHADEVAN  
Dy. Secy.

#### BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, the 18th August 2004

No. BRIT/9/17/FEB/2004/S-566—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'D' of the board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 01, 2004 until further orders.

Sl. Name  
No.

1. Shri Nityanand Pal
2. Shri V. J. Chacko
3. Smt. Jain Reji George
4. Shri Ravi Seshan

O. BHARATHAN  
Administrative Officer-III

No. BRIT/9/17/FEB/2004/S-567—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'C' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same unit in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 01, 2004 until further orders.

Sl. Name  
No.

1. Shri D. K. Ranganatha
2. Shri Saeed Anwar Tariq
3. Shri G. Chatterjee

O. BHARATHAN  
Administrative Officer-III

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 02nd September 2004

Ref :NFC/PAR. II/2-2004/1145—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Scientific

No. 22/3(2)/2004-CCS/23—The President is pleased to appoint Shri P. A. Munuswamy, Assistant Stores Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500/-), MRPU, Directorate of Purchase & Stores, Chennai, of this Department as Stores Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the Stores Unit, DPS, Kalpakkam with effect from the forenoon of 04.06.2004 (FN) until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 22/3(1)/2004-CCS/24—On attaining the age of superannuation, Shri C. U. Punjabi, Purchase Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department, retired from Government Service on 30.04.2004 (AN).

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

No. 22/3(2)/2004-CCS/25—On attaining the age of superannuation, Shri K. P. V. Nair, Stores Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department, retired from Government Service on 30.04.2004 (AN).

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

The 31st August 2004

No. 21/3(3)/2004-CCS/26—The President is pleased to appoint Shri S. S. Prabhuzantye, Senior Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8,000—13,500/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the Atomic Energy Regulatory Board, Mumbai with effect from the forenoon of 19.08.2004 (FN) until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

Mumbai-400001, the 31st August 2004

No. 1/6(5)/2002-Power/679—The President is pleased to appoint Shri H. D. Sharma, Scientific Officer/Engineer 'G' of this Department who is on permanent deputation to Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL), Head Quarters to the Grade Scientific Officer/Engineer 'H' in the

Assistant of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grades and with effect from the dates indicated against each in the same unit, in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Promotion From Gr.	To Gr.	Date of Promotion
Scale of pay of SO(E)—Rs. 12,000-375-16,500/-				
S/Shri				
1.	T. Amar Prakash	SO/D	SO/E	01.02.2004
2.	E. Venkatesham	"	"	01.02.2004
3.	K. Gurumurthy	"	"	01.02.2004
4.	D. G. K. Suri	"	"	01.02.2004
5.	M. Robin Rodrigo	"	"	01.02.2004
Scale of pay of SO(D)—Rs. 10,000-325-15,200/-				
1.	Dr. B. Ravi Raj	SO/C	SO/D	01.02.2004
2.	P. Prema Prasad	"	"	01.02.2004
3.	G. N. Ramesh	"	"	03.02.2004
4.	A. Sudhakar Rao	"	"	01.02.2004
5.	D. Mallikarjun Reddy	"	"	01.02.2004
6.	V. Dinakar	"	"	01.02.2004
7.	C. Ramakrishna	"	"	10.02.2004
8.	V. Ravi Kumar	"	"	01.02.2004
Scale of pay of SO(C)—Rs. 8,000-275-13,500/-				
1.	V. R. C. Kumar	SO/SB	SO/C	01.02.2004
2.	B. S. Prakasa Rao	"	"	01.02.2004
3.	K. Gopalakrishna	"	"	01.02.2004
4.	P. B. Vara Prasad	"	"	01.02.2004
5.	R. S. Ambhorkar	"	"	01.02.2004
6.	R. P. Selvam	SA/D	"	01.02.2004

G. KOTESWARA RAO  
Administrative Officer

#### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

#### OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kajaria Solutions Limited

New Delhi-110003, the 21st November 2004

No. 560(3)/SES/269/55/105431/4640—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kajaria Solutions Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shankar Lambons Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 27th August 2004

No. SES/560(5)/05/34229/184/1566—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shankar Lambons Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. K. M. Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 27th August 2004

No. SES/560(5)/05/32128/192/1575—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. K. M. Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Digboi Bottling Engineers Limited

New Delhi-110019, the 27th August 2004

No. SES/560(5)/55/60268/1593—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Digboi Bottling Engineers Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M.K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hayes Cyrstel Light House Impex Exports  
Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-56625/OG2/445/8424—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hayes Cyrstel Light House Impex Exports Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hind Abrasives Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-39794/OG2/445/8421—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hind Abrasives Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supriya Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-34068/OG2/445/8418—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supriya Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brijbasi Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-32263/OG2/445/8415—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brijbasi Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dharam Sukh Investments Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-31901/OG2/445/8412—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dharam Sukh Investments Pvt. Ltd. has this day been struck off from the

Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. August Finlease Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-62592/OG2/445/8445—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. August Finlease Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sragan Construction Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-29121/OG2/445/8439—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sragan Construction Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anudeep Electronics and Electricals Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-29352/OG2/445/8436—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anudeep Electronics and Electricals Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cee Kay Packaging Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-33902/OG2/445/8433—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cee Kay Packaging Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Original Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-36605/OG2/445/8430—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Original Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bag Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-38961/OG2/445/8427—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bag Consultants Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Golderood Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-71438/OG2/445/8508—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Golderood Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Infosys Computers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-37382/OG2/445/8505—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Infosys Computers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Imperial Impex Co. Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-27971/OG2/445/8502—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Imperial Impex Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. R. Sakhuja Sons Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-10667/OG2/445/8499—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. R. Sakhuja Sons Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dahlia Housing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18570/OG2/445/8496—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dahlia Housing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Holothuria Chattels Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18572/OG2/445/8493—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Holothuria Chattels Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haryana Metallurgical Research Co. Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-20684/OG2/445/8490—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Haryana Metallurgical Research Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sant Chit and Trading Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-9227/OG2/445/8487—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sant Chit and Trading Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Malus Construction Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18397/OG2/445/8484—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Malus Construction Pvt. Ltd. has this day been struck off from the

Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Utica Investment and Trading Co. Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-20602/OG2/445/8481—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utica Investment and Trading Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Popular Headgears Manufacturing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-20716/OG2/445/8478—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Popular Headgears Manufacturing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Golden Marketing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-22568/OG2/445/8475—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Golden Marketing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. R-Ajay Surveyors Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-40631/OG2/445/8472—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. R-Ajay Surveyors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chakra Foods Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-41058/OG2/445/8469—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chakra Foods Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nitesh Holdings Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-41108/OG2/445/8466—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nitish Holdings Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vap Enterprises Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-43004/OG2/445/8463—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vap Enterprises Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Unimark Agencies Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-43521/OG2/445/8460—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unimark Agencies Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kemptfalls Recreations Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-46258/OG2/445/8457—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kemptfalls Recreations Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abhishi Investments & Finance Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-46638/OG2/445/8454—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Abhishi Investments & Finance Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nimbus Credit & Holdings Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-49232/OG2/445/8451—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nimbus Credit & Holdings Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiva Processors Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-9372/OG2/445/8565—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shiva Processors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Venice Designs Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-74207/OG2/445/8562—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venice Designs Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nargis Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-53559/OG2/445/8559—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nargis Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gladioli Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-53540/OG2/445/8556—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gladioli Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Crystopal Glass (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-28975/OG2/445/8553—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crystopal Glass (India) Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lloyds Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-32850/OG2/445/8550—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lloyds Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. All Vee Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-44089/OG2/445/8547—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. All Vee Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Millennium Overseas Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-70281/OG2/445/8544—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Millennium Overseas Pvt. Ltd. has this day been struck off from the

Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tomson Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-34749/OG2/445/8541—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tomson Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Welkin Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-70312/OG2/445/8538—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Welkin Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. F. X. Productions Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-70551/OG2/445/8535—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. F. X. Productions Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Susma Sumita Exports Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-70709/OG2/445/8532—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sushma Sumita Exports Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abhimanyu Builders and Contractors Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-41578/OG2/445/8529—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Abhimanyu Builders and Contractors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lokseva Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-53355/OG2/445/8526—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lokseva Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. Dataquip Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18603/OG2/445/8523—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. Dataquip Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brezzy Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-72069/OG2/445/8520—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brezzy Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mohan Fincap Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-71842/OG2/445/8517—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mohan Fincap Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Camellia Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-71580/OG2/445/8514—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Camellia Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Red Clover Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-71440/OG2/445/8511—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Red Clover Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register

and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ambica Print 'O' Pack India Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-63716/OG2/445/8337—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambica Print 'O' Pack India Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mbit Automation Systems Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-68636/OG2/445/8334—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mbit Automation Systems Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vachher Leasing & Finance Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-67390/OG2/445/8331—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vachher Leasing & Finance Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Binzer India Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-68000/OG2/445/8328—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Binzer India

Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sarna Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-62234/OG2/445/8325—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarna Financial Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. K.D.S. Securities & Financial Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-62948/OG2/445/8322—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K.D.S. Securities & Financial Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aster Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-67683/OG2/445/8319—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aster Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Bheemaji Agro Mills Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-39768/OG2/445/8316—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Bheemaji Agro Mills Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madaan Fruits Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-34387/OG2/445/8313—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madaan Fruits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rai Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-36409/OG2/445/8310—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rai Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ivory Leasing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-39173/OG2/445/8307—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ivory Leasing

Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maritech Engineering (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-74864/OG2/445/8304—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maritech Engineering (India) Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mayukh Finlease Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-74153/OG2/445/8301—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mayukh Finlease Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Luxmi Buildcon Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-72036/OG2/445/8298—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Luxmi Buildcon Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wintek Securities Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-70884/OG2/445/8295—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wintek Securities Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunheri Leasing & Finance Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-69079/OG2/445/8292—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sunheri Leasing & Finance Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pravi Impex Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-61389/OG2/445/8289—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pravi Impex Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. MJI Leasing and Finance Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-48965/OG2/445/8286—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. MJI Leasing and Finance Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vishkarma Impex Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-57222/OG2/445/8283—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishkarma Impex Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. O. P. Communications Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-50163/OG2/445/8280—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P. O. P. Communications Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pace Apparel India Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-54803/OG2/445/8277—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pace Apparel India Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Meatiles Family Investment Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-52601/OG2/445/8276—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meatiles Family Investment Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Miglani Finance & Leasing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-56836/OG2/445/8271—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Miglani Finance & Leasing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jeetech Engineers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-55373/OG2/445/8268—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeetech Engineers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Priambada Fabricators and Engineers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-15898/OG2/445/8265—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Priambada Fabricators and Engineers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A Rescon Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-16618/OG2/445/8262—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A Rescon Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the

said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. I. P. Offset Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-17100/OG2/445/8259—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. I. P. Offset Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Carica Builders Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18241/OG2/445/8256—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Carica Builders Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Phoenix Chattles Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18242/OG2/445/8253—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Phoenix Chattles Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Capsi Cum Developers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18260/OG2/445/8250—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Capsi Cum Developers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pumimca Developers Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18265/OG2/445/8247—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pumimca Developers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cosmos Builders Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18271/OG2/445/8244—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cosmos Builders Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amazone Builders Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18282/OG2/445/8241—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amazone Builders Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Santosh Enterprises International Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-12933/OG2/445/8238—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Santosh Enterprises International Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Triveni Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-14299/OG2/445/8235—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Triveni Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. S. Gambhir Finance and Chit Fund Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-15503/OG2/445/8232—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. S. Gambhir Finance and Chit Fund Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Glycine Housing Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-18532/OG2/445/8229—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Glycine Housing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the

Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jolly Knit Crafts Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-66091/OG2/445/8226—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jolly Knit Crafts Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dianthus Farms Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-67703/OG2/445/8223—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dianthus Farms Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wasson Investment & Finance Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-66965/OG2/445/8220—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wasson Investment & Finance Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kava Investment Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-63600/OG2/445/8217—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kava Investment Company Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suncro Fasteners Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-26684/OG2/445/8214—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suncro Fasteners Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Salasar Ispat Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-54796/OG2/445/8211—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Salasar Ispat Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anil Trading Company Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-31136/OG2/445/8208—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anil Trading Company Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Acuity Financial Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-72720/OG2/445/8205—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Acuity Financial Consultants Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Centre for Professional Development &  
Reconstruction Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-74530/OG2/445/8202—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Centre for Professional Development & Reconstruction Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shilp Power Projects Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 30th August 2004

No. 560/55-74693/OG2/445/8199—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shilp Power Projects Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company shall stand dissolved on the publication of this notice in the official gazette.

R. K. SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhanju Finance Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 26th August 2004

No. ROC/560(3)/13097/4928—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dhanju Finance Pvt. Ltd.

unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rangeshwar Finance & Investment Co. Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-20929/4610—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rangeshwar Finance & Investment Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. H. Laboratories Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-23647/4612—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. H. Laboratories Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. K. Burman Herbal Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-11165/4614—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. K. Burman Herbal Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Primacy Polymers Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-19239/4616—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Primacy Polymers Pvt. Ltd.

has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sama Enterprises Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-17488/4618—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sama Enterprises Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Smriti Real Estate Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-12624/4620—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Smriti Real Estate Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Benaras Hosiery Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-1088/4622—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Benaras Hosiery Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. J. B. Poly Containers Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-5379/4624—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. J. B. Poly Containers



Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brijwasi Plywood Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-18995/4626—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brijwasi Plywood Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Krishna Balram Agro Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-19767/4628—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Krishna Balram Agro Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vrindaban Hotels Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-18618/4630—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vrindaban Hotels Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivangi Impex Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-17831/4632—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shivangi Impex Pvt. Ltd.

has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deepika Fincap Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-20372/4634—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deepika Fincap Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Radha Wire Industries Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-20392/4636—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Radha Wire Industries Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. H. S. Trivedi & Associates Cold Storage Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-22567/4638—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H. S. Trivedi & Associates Cold Storage Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganga Jamuna Finance & Investment Co. Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-17218/4640—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganga Jamuna Finance &

Investment Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A & A Candyman Marketers Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-23824/4642—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A & A Candyman Marketers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Commercial Auto Ancillaries Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-14860/4644—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Commercial Auto Ancillaries Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. HCG Engineering Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-14448/4646—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. HCG Engineering Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. HCG Mutual Benefits Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-19449/4648—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. HCG Mutual Benefits Ltd.

has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Segment India (Export) Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-17350/4650—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Segment India (Export) Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Scan Professionals Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th August 2004

No. 560(5)/LC/SES-14865/4652—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Scan Professionals Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. C. R. Finvest Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 2nd September 2004

No. 560(5)/LC/SES-21628/4764—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. C. R. Finvest Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. D. Shukla Surveyors Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 2nd September 2004

No. 560(5)/LC/SES-7351/4766—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. D. Shukla Surveyors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Singhania Herbal Cosmetics Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd September 2004

No. 560(5)/LC/SES-14729/4857—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Singhania Herbal Cosmetics

Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U. P. & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalyan Flexipack Pvt. Ltd.

Naranpura, Ahmedabad-380013, 3rd September 2004

No. 16455/ROC/T.A./KHM/GUJ/560/2004/936—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Kalyan Flexipack Pvt. Ltd. unless cause is shown is contrary, the name will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

P. MEENA  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat